



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

26/3/99

सं० 60 ]  
No. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 1999/चैत्र 2, 1921  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 1999/CHAITRA 2, 1921

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1999

सं. 58-प्रज/99—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करते हैं :

## पदम विभूषण

- पंडित भिमसेन गुरूराज जोशी, {कला-गायन}, पुणे, महाराष्ट्र ।  
श्री ब्रज कुमार नेहरू, {सार्वजनिक मामले}, कसीली, हिमाचल प्रदेश ।  
श्रीमती दामल कृष्णस्वामी पट्टम्माल, {कला-कर्नाटक संगीत}, चेन्नाई, तमिलनाडु ।  
श्री धर्म धीर, {सिविल सेवा}, नई दिल्ली ।  
श्री न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना {सेवा-निवृत्त}, {सार्वजनिक मामले-विधि}, नई दिल्ली ।  
श्री लल्लन प्रसन्न सिंह {मरणोपरान्त} {सिविल सेवा}, नई दिल्ली ।  
कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर, {कला-संगीत-सिनेकला}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।  
श्री नाना देशमुख, {समाज कार्य}, नई दिल्ली ।  
श्री पांडुरंगशास्त्री आठवले, {समाज कार्य}, मुम्बई महाराष्ट्र ।  
डा० राजगोपाल चिदम्बरम्, {विज्ञान एवं इंजीनियरी-नाभिकीय प्रौद्योगिकी}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० सर्वेपल्लि गोपाल, {साहित्य एवं शिक्षा—इतिहास}, चेन्नई, तमिलनाडु ।

श्री सतीश गुजराल, {कला—चित्रकला एवं मूर्तिकला} नई दिल्ली ।

श्री न्यायमूर्ति वैद्यनाथपुरम राम अय्यर कृष्ण अय्यर {सेवा—निवृत्त}, सार्वजनिक मामले—विधि, एर्नाकुलम केरल ।

डा० वर्गजि कुरियन, {विज्ञान एवं इंजीनियरी—डैरी}, आनन्द, गुजरात ।

### पदम भूषण

श्री अनिल काकोडकर, {विज्ञान एवं इंजीनियरी—नाभिकीय विज्ञान}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री अशोक कुमार {कला—सिने कला}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री डोमिनिक चाको किष्केमूरि, {मरणोपरान्त} {साहित्य—मलयालम}, कोट्टायम, केरल ।

डा० जॉर्ज जोसफ {विज्ञान एवं इंजीनियरी—अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी}, अहमदाबाद, गुजरात ।

श्री हरि देव शीरी {समाज कार्य—उपभोक्ता आन्दोलन}, नई दिल्ली ।

श्री जेवकव चेरीयान, {समाज कार्य—सांभुदायिक स्वास्थ्य}, अन्ना जिला, तमिलनाडु ।

श्री जग प्रवेश चन्द्रा, {सार्वजनिक मामले}, नई दिल्ली ।

श्री कृष्णमूर्ति सन्तानम, {विज्ञान एवं इंजीनियरी—रक्षा प्रौद्योगिकी}, नई दिल्ली ।

श्रीमती पुष्प लता दास, {समाज कार्य}, गुवाहाटी, असम ।

श्री रामकिंकर उपाध्याय, {विधि—भारतीय संस्कृति का प्रचार}, अयोध्या, उत्तर प्रदेश ।

~~डा० सैम्येन श्रीनिवास नट्टीनाथ {चिकित्सा शास्त्र—नेत्र विज्ञान}, चेन्नई, तमिलनाडु ।~~

डा० शिवमंगल सिंह युगन, {साहित्य—हिन्दी}, उज्जैन, मध्य प्रदेश ।

श्री सोहराव पिरोजशा गोदरेज, {व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

प्रोफेसर विद्या निवास मिश्र, {साहित्य एवं शिक्षा—संस्कृत}, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।

### पदम श्री

प्रोफेसर आशिष दत्ता, {साहित्य एवं शिक्षा}, नई दिल्ली ।

डा० बशीर बद्र {साहित्य—भारतीय भाषा}, भोपाल, मध्य प्रदेश ।

वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा {चिकित्सा शास्त्र—आयुर्वेदिक}, नई दिल्ली ।

श्री ज्ञान प्रकाश चोपड़ा {साहित्य एवं शिक्षा}, नई दिल्ली ।

श्री हर्षवर्द्धन नेवटिया, {व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि}, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।

प्रोफेसर श्रीमती इंदिरा नाथ, {चिकित्साशास्त्र—इन्फ्यूरोलॉजी}, नई दिल्ली ।

श्री जगनगीय मित्र उर्फ जगमोहन सूरसागर {कला-संगीत}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री जावेद अब्दुल, {कला-सिने कला}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

श्रीमती कर्णम मालेश्वरी {खेलकूद-भारोत्तोलन}, श्रीफाकुलम, आन्ध्रप्रदेश ।

डा० कन्दैया लाल नंदन, {साहित्य और शिक्षा-हिन्दी}, नई दिल्ली ।

डा० कुरुडामन्निल एब्रहाम एब्रहाम {चिकित्सा शास्त्र-हृदयरोग चिकित्सा}, चेन्नई, तमिलनाडु ।

श्री मालासमुद्रम सुब्रामण्यम रामकुमार {विज्ञान और इंजीनियरी-नाभिकीय विज्ञान}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० भगिन वेंकटेश्वर राव, {विज्ञान और इंजीनियरी-कृषि}, शिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।

श्री नागदेव धाराल, {साहित्य और शिक्षा-भारतीय साहित्य}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

श्री नटवर भाजी ठक्कर {समाज कार्य}, मोकोकचुंग, नागालैण्ड ।

श्री पन्नियंपल्लि वृष्ण कारियर {चिकित्सा शास्त्र-आयुर्वेदिक}, कोट्टवकल, केरल ।

डा० राज बोथरा, {चिकित्सा शास्त्र}, मिशिंगन, यू०ए००५० ।

श्री राम वंजी सुतार, {कला-मूर्तिकला}, धुलिया, महाराष्ट्र ।

आचार्य राममूर्ति, {समाज कार्य}, पटना विहार ।

श्री राजकुमार झलजित सिंह, {साहित्य और शिक्षा}, इम्फाल, मणिपुर ।

डा० रहमत बेगम साइलानियोदा {चिकित्साशास्त्र-स्त्रीरोग विज्ञान}, कवारत्ती, लक्षद्वीप ।

श्री रस्किन चांड, {साहित्य और शिक्षा-अंग्रेजी}, मसूरी, उत्तर प्रदेश ।

श्री सच्चिन रमेश तेंडुलकर, {खिलौन-प्रियेक्ट}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० श्रीमती सरयू विनोद दोशी, {कला-चित्रकला और इतिहास}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० सतिन्द्र कुमार मिश्र, {विज्ञान और इंजीनियरी-नाभिकीय विज्ञान}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० सत्यजित आर्य, {साहित्य और शिक्षा-संस्कृत}, दिल्ली ।

श्रीमती श्यामा चोना, {साहित्य और शिक्षा}, नई दिल्ली ।

श्रीमती शोभा दीपक सिंह {कला-नृत्य}, नई दिल्ली ।

श्रीमती सुलोचना शंकरराव लाटकर, {कला-सिने कला}, मुम्बई, महाराष्ट्र ।

डा० श्रीमती सुमति गुटाटकर {कला संगीत-गायन}, दिल्ली ।

त्रिगेडियर थेंपुन्ना साइलो, {समाज कार्य}, आइजोल, मिजोरम ।

श्री छेरिंग चांगदुसा, {कला-चित्रकला}, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ।

वैद्य बालेन्दु प्रकाश, {चिकित्साशास्त्र-आयुर्वेदिक}, देहरादून, उत्तर प्रदेश ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सेठी, {विज्ञान और इंजीनियरी-रक्षा प्रौद्योगिकी}, चंडीगढ़ ।

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 1999

No.58-Pres/99.—The President is pleased to make the following awards :—

PADMA VIBHUSHAN

Pandit Bhimsen Gururaj Joshi, (Art-Vocal), Pune, Maharashtra.

Shri Braj Kumar Nehru, (Public Affairs), Kasauli, Himachal Pradesh.

Smt. Damal Krishnaswamy Pattammal, (Art-Carnatic Music), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Dharma Vira, (Civil Service), New Delhi.

Shri Justice Hans Raj Khanna (Retd.), (Public Affairs-Law), New Delhi.

Shri Lallan Prasad Singh (Posthumous), (Civil-Service), New Delhi.

Kumari Lata Dinanath Mangeshkar, (Art-Music-Cine Art), Mumbai, Maharashtra.

Shri Nana Deshmukh, (Social Work), New Delhi.

Shri Pandurangshastri Athavale, (Social Work), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Rajagopala Chidambaram, (Science and Engineering-Nuclear Technology), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Sarvepalli Gopal, (Literature and Education-History), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Satish Gujral, (Art-Painting and Sculpture), New Delhi.

Shri Justice Vaidynathapuram Rama Ayyar Krishna Iyer (Retd.), (Public Affairs-Law), Ernakulam, Kerala.

Dr. Verghese Kurien, (Science and Engineering-Dairy), Anand, Gujarat.

.....2/-

PADMA BHUSHAN

Shri Anil Kakodkar, (Science and Engineering-Nuclear Science),  
Mumbai, Maharashtra.

Shri Ashok Kumar, (Art-Cine Arts), Mumbai, Maharashtra.

Shri Dominic Chacko Kizhakemuri (Posthumous), (Literature-  
Malayalam), Kottayam, Kerala.

Dr. George Joseph, (Science and Engineering-Space Technology),  
Ahmedabad, Gujarat.

Shri Hari Dev Shourie, (Social Work-Consumer Movement), New  
Delhi.

Dr. Jacob Cherian, (Social Work-Community Health), Anna  
District, Tamil Nadu.

Shri Jag Parvesh Chandra, (Public Affairs), New Delhi.

Shri Krishnamurthy Santhanam, (Science and Engineering-Defence  
Technology), New Delhi.

Smt. Pushpa Lata Das, (Social Work), Guwahati, Assam.

Shri Ramkinker Upadhyay, (Miscellaneous-Propagation of Indian  
Culture), Ayodhya, Uttar Pradesh.

Dr. Sengamedu Srinivasa Badrinath, (Medicine-Ophthalmology),  
Chennai, Tamil Nadu.

Dr. Shivmangal Singh Suman, (Literature-Hindi), Ujjain, Madhya  
Pradesh.

Shri Sohrab Pirojsha Godrej, (Trade and Economic Activity),  
Mumbai, Maharashtra.

Prof. Vidya Niwas Misra, (Literature and Education-Sanskrit),  
Varanasi, Uttar Pradesh.

PADMA SHRI

Prof. Asis Datta, (Literature and Education), New Delhi.

Dr. Bashir Badr, (Literature-Indian Language), Bhopal, Madhya  
Pradesh.

Vaidya Devendra Triguna, (Medicine-Ayurvedic), New Delhi.

Shri Gian Parkash Chopra, (Literature and Education), New Delhi.

Shri Harshavardhan Neotia, (Trade and Economic Activity),  
Calcutta, West Bengal.

Prof.(Smt.) Indira Nath, (Medicine-Immunology), New Delhi.

Shri Jaganmoy Mitra alias Jagmohan Sursagar, (Art-Music), Mumbai, Maharashtra.

Shri Javed Akhtar, (Art-Cine Art), Mumbai, Maharashtra.

Smt. Karnam Malleshwari, (Sports-Weight Lifting), Srikakulam, Andhra Pradesh.

Dr. Kanhaiya Lal Nandan, (Literature and Education-Hindi), New Delhi.

Dr. Kurudamannil Abraham Abraham, (Medicine-Cardiology), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Mallasamudram Subramanyam Ramakumar, (Science and Engineering-Nuclear Science), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Mangina Venkateswara Rao, (Science and Engineering Agriculture), Secunderabad, Andhra Pradesh.

Shri Namdev Dhasal, (Literature and Education-Indian Literature), Mumbai, Maharashtra.

Shri Natwarbhai Thakkar, (Social Work), Mokokchung, Nagaland.

Dr. Panniyampalli Krishna Warriar, (Medicine-Ayurvedic), Kottakkal, Kerala.

Dr. Raj Bothra, (Medicine), Michigan, U.S.A.

Shri Ram Vanji Sutar, (Art-Sculpture), Dhulia, Maharashtra.

Acharya Ramamurti, (Social Work), Patna, Bihar.

Shri Rajkumar Jhalajit Singh, (Literature and Education), Imphal, Manipur.

Dr. Rehmath Beegum Sailaniyoda, (Medicine-Gynaecology), Kavaratti, Lakshadweep.

Shri Ruskin Bond, (Literature and Education-English), Mussoorie, Uttar Pradesh.

Shri Sachin Ramesh Tendulkar, (Sports-Cricket), Mumbai, Maharashtra.

Dr. (Smt.) Saryu Vinod Doshi, (Art-Painting and History), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Satinder Kumar Sikka, (Science and Engineering-Nuclear Science), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Satya Vrat Shastri, (Literature and Education-Sanskrit), Delhi.

Smt. Shayama Chona, (Literature and Education), New Delhi.

Smt. Shobha Deepak Singh, (Art-Dance), New Delhi.

Smt. Sulochana Shankarrao Latkar, (Art-Cine Art), Mumbai, Maharashtra.

Dr.(Smt.) Sumati Mutatkar, (Art-Music-Vocal), Delhi.

Brigadier (Retd.) Thenphunga Sailo, (Social Work), Aizawl, Mizoram.

Shri Tsering Wangdus, (Art-Painting), Ladakh, Jammu and Kashmir.

Vaidya Balendu Prakash, (Medicine-Ayurvedic), Dehra Dun, Uttar Pradesh.

Shri Virendra Singh Sethi, (Science and Engineering-Defence Technology), Chandigarh.

GOPALKRISHNA GANDHI, Secy. to the President

